

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी, ब्रैम्पटन के लिए हिमायत, सरकारी साझेदारियों और राजस्व के अतिरिक्त स्रोतों के द्वारा अधिक मज़बूत भविष्य सुरक्षित कर रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 जुलाई, 2020) – सरकार के सभी महकमों के साथ काम करते हुए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, वृद्धि और स्थिरता संबंधी पहलकदमियों हेतु हिमायत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो इसके निवासियों को फायदा पहुंचाएंगी और लोकल तौर पर बदलाव लाएंगी। हेल्थ केयर, पोस्ट सेकंडरी एजुकेशन, ट्रांज़िट और आर्थिक बहाली के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, सिटी ने ब्रैम्पटन हेतु अधिक मज़बूत भविष्य सुरक्षित करने के लिए राजस्व के अतिरिक्त स्रोत ढूंढते हुए, फेडरल और प्रोविंसियल सरकारों से पर्याप्त ग्रांट्स और योगदान सुरक्षित किए हैं।

### फेडरल और प्रोविंसियल ग्रांट फंडिंग और योगदान

2019 से, फेडरल और प्रोविंसियल सरकारों के द्वारा ग्रांट फंडिंग घोषणाओं और योगदानों में, सिटी के लिए कुल 667,195,952 डॉलर की घोषणा की गई है, जो 2011 के बाद पिछली टर्म ऑफ काउंसिल्स में 232 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें से, लगभग 137.8 मिलियन की फंडिंग, महामारी की प्रतिक्रिया में कोविड-19 रीस्टार्ट एंड रिकवरी (COVID-19 Restart and Recovery) के लिए है। 2019 से, सिटी के लिए ग्रांट की फंडिंग की कुल राशि, 529,314,465 डॉलर है, यह राशि कोविड-19 (COVID-19) एप्लिकेशंस से संबंधित नहीं है।

कैनेडा और ओनटैरियो सरकारों के साथ काम करते हुए, सिटी ने 2019 के बाद निम्नलिखित मुख्य प्रोजेक्ट्स में ग्रांटों और योगदानों की सफलतापूर्वक हिमायत की और इन्हें सुरक्षित किया है:

- **रिवरवॉक** – नवंबर 2020 में, यह घोषणा की गई थी कि सिटी को [डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बाढ़ राहत के लिए 38 मिलियन डॉलर से अधिक राशि मिलेगी \(more than \\$38 million towards flood mitigation in downtown Brampton\)](#), जो सिटी को इसके रिवरवॉक (Riverwalk) प्रोजेक्ट को पूरा करने के एक कदम और पास ले जाएगी। सिटी के, डाउनटाउन ब्रैम्पटन फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट (Downtown Brampton Flood Protection Project) के आवेदन को, कैनेडा सरकार के द्वारा मंजूर किया गया था। यह मंजूरी, डिजास्टर मिटीगेशन एंड अडाप्टेशन फंड (Disaster Mitigation and Adaptation Fund) के नियमों और शर्तों के अंतर्गत, प्रोजेक्ट की सफल समीक्षा के बाद दी गई थी।
- **पील मेमोरियल का फेज टू** – मार्च 2021 में, प्रोविंसियल सरकार ने घोषणा की थी कि उनके बजट के हिस्से के तौर पर, वह एक नए अस्पताल में [विलियम ओसलर हेल्थ सिस्टम के पील मेमोरियल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस के विस्तार \(expansion of William Osler Health System's Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness\)](#) के

लिए फंड देगी और रायरसन यूनिवर्सिटी (Ryerson University) के साथ साझेदारी में ब्रैम्पटन में, मेडिकल एजुकेशन के नए इंस्टीट्यूट के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

- **पोस्ट सेकंडरी** – मार्च 2021 में, सिटी ने रायरसन यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंस्टीट्यूट सहित, ब्रैम्पटन में अन्य पोस्ट सेकंडरी अवसरों के विस्तार की प्रान्त की घोषणा का स्वागत किया था। 7 जुलाई की अपनी मीटिंग में, काउंसिल ने भविष्य के ब्रैम्पटन स्कूल ऑफ मेडिसिन (Brampton School of Medicine) हेतु फंड में मदद करने के लिए 1 मिलियन डॉलर की प्लानिंग ग्रांट के पक्ष में वोट दिया था। 16 जून, 2021 को, सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ-हम्बर (University of Guelph-Humber) ने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को सेंटर फॉर इनोवेशन (Centre for Innovation) में एंकर टेनेंट के तौर पर, ब्रैम्पटन में लाने के उद्देश्य की पुष्टि की थी।
- **तीसरी ब्रैम्पटन ट्रांज़िट फैसिलिटी** – अप्रैल, 2021 में, ब्रैम्पटन ने [तीसरी ब्रैम्पटन ट्रांज़िट फैसिलिटी के प्रति 128 मिलियन डॉलर का सुरक्षित फेडरल और प्रोविंसियल निवेश सुरक्षित किया था \(secured federal and provincial investment of \\$128M towards a third Brampton Transit facility\)](#)। इस नई फैसिलिटी का निर्माण, ब्रैम्पटन के लिए पब्लिक ट्रांज़िट इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी, क्वालिटी और सुरक्षा में सुधार करेगा। साथ ही, निवासियों के लिए अधिक साफ और अधिक प्रभावशाली ट्रांसपोर्टेशन तरीके तैयार करते हुए, इलेक्ट्रिक बसों की सेवा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्य की इंस्टॉलेशन की जा सकेगी।
- **मुख्य इलेक्ट्रिक बस पायलट प्रोजेक्ट** – जुलाई 2019 में, सिटी ने [ब्रैम्पटन में मुख्य पैन-कैनेडियन इलेक्ट्रिक बस डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंटीग्रेशन ट्रायल में कैनेडा सरकार के द्वारा किए गए मुख्य निवेश \(significant investment by the Government of Canada in the milestone Pan-Canadian Electric Bus Demonstration and Integration Trial in Brampton\)](#) का स्वागत किया था। सिटी के द्वारा सुरक्षित की गई, पायलट प्रोजेक्ट के फेज 1 हेतु 11.15 मिलियन डॉलर की फंडिंग, ब्रैम्पटन में बैटरी इलेक्ट्रिक बसों के टेस्ट के लिए सुरक्षित की गई थी।

## स्पांसरशिप

मार्च 2019 में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने पूरी सिटी में स्पांसरशिप कार्यनीति और अपडेट की गई स्पांसरशिप एंड नेमिंग राइट्स पॉलिसी (Sponsorship and Naming Rights Policy) के हिस्से के तौर पर, नाम बदलने के अधिकारों की बिक्री की लिए सिटी की फैसिलिटी की लघु सूची को मंजूरी दी थी। पूरी सिटी में स्पांसरशिप और नाम बदलने के अधिकारों संबंधी प्रोग्राम, कारोबारियों को कम्युनिटी से जुड़ने, निवासियों के लिए बढ़े हुए अनुभव पैदा करने के लिए अनुकूलित अवसर पेश करता है।

बढ़े हुए वित्तीय दबावों के साथ सिटी, निवासियों के लिए जीवन की उच्चतम क्वालिटी प्रदान करते हुए, ब्रैम्पटन के टैक्स देने वालों पर असर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सितम्बर 2020 में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने 2,512,500 डॉलर में ब्रैम्पटन सॉकर सेंटर (Brampton Soccer Centre) के बाहरी नाम को बदलने संबंधी अधिकारों के लिए, [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और सेव मैक्स रियल एस्टेट इंक. के बीच 15-वर्षीय एग्रीमेंट \(15-year agreement between the City of Brampton and Save Max Real Estate Inc.\)](#) को मंजूरी दी थी।

पूरी सिटी में स्पांसरशिप कार्यनीति और अपडेट की गई स्पांसरशिप एंड नेमिंग राइट्स पॉलिसी को अपनाने के बाद, सिटी ने निवासियों को अधिक शानदार सेवा प्रदान करने से जुड़ी बड़ी हुई लागतों में संतुलन कायम करने के लिए, राजस्व में कुल 3.7 मिलियन डॉलर के स्पांसरशिप और नाम बदलने के अधिकारों संबंधी एग्रीमेंट्स को अंतिम रूप दिया है।

## हवाले

“कोविड-19 महामारी ने सरकार के सभी महकमों के बीच में, बढ़े हुए सहयोग और हेल्थ केयर, ट्रांज़िट और आर्थिक बहाली में अंतरों को पूरा करने के लिए समय पर निवेश की जरूरत को काफी हद तक बढ़ा दिया है। मुझे, हमारे निवासियों की हिमायत करने हेतु इस पूरी टर्म ऑफ काउंसिल के दौरान, सिटी के द्वारा किए गए काम पर गर्व है और फेडरल और प्रोविंसियल सरकारों का, उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। इकट्ठे मिलकर, हम ब्रैम्पटन के लिए अधिक मजबूत भविष्य सुरक्षित करना जारी रखेंगे।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी में, हम पर्याप्त लोकल निवेशों और साझेदारियों के द्वारा ब्रैम्पटन के निवासियों की ज़िंदगियों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम हमारे फेडरल, प्रोविंसियल और कारोबारी साझेदारों के साथ लगातार सहयोग के लिए उत्साहित हैं क्योंकि हम ब्रैम्पटन को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

## मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)